

हमारी वित्तीय संस्थाएँ

1. निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं? [BSEB 2018AI]

- (A) महाजन
- (B) व्यापारी
- (C) रिश्तेदार
- (D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/व्यावसायिक बैंक

2. वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं—

- (A) राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ
- (B) राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ
- (C) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

3. वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है?

- (A) व्यावसायिक बैंक
- (B) सहकारी साख समितियाँ
- (C) बीमा कम्पनियाँ
- (D) इनमें सभी

4. भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? [BSEB 2015C, 2018AI]
 (A) दिल्ली (B) मुम्बई
 (C) पटना (D) बंगलौर
5. भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं—
 (A) दो (B) चार
 (C) तीन (D) पाँच
 गैर-संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है—
 (A) देशी बैंकर (B) महाजन
 (C) व्यापारी (D) सहकारी बैंक
7. सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? [BSEB 2018C]
 (A) 1966 (B) 1980
 (C) 1969 (D) 1975
8. निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है?
 (A) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
 (B) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
 (C) राष्ट्रपति (D) संसद
9. कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है—
 (A) प्राथमिक कृषि साख समिति
 (B) व्यावसायिक बैंक
 (C) भूमि विकास बैंक
 (D) महाजन
10. शेयर बाजार की नियामक संस्था है— [BSEB 2018AI]
 (A) SIDBI (B) SEBI
 (C) RBI (D) STOCK EXCHANGE
11. भारत का केन्द्रीय बैंक कौन है? [BSEB 2017AI, 18AI]
 (A) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
 (B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 (C) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
 (D) पंजाब नेशनल बैंक
12. व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं?
 (A) स्थायी जमा (B) आवर्ती जमा
 (C) संचयी जमा (D) इनमें से सभी
13. ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गयी थी?
 (A) 2 अक्टूबर, 1975
 (B) 5 अक्टूबर, 1975
 (C) 30 जून, 1975
 (D) 1 अप्रैल, 1975
14. इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है?
 (A) मुम्बई (B) कानपुर
 (C) पटना (D) दिल्ली
15. निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं हैं?
 (A) जमा राशि को स्वीकार करना
 (B) ऋण देना
 (C) मौद्रिक नीति तय करना
 (D) एजेन्सी संबंधी कार्य

16. देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है—
 (A) 190 (B) 192
 (C) 199
 (D) 196
17. व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है—
 (A) स्थायी जमा
 (B) चालू जमा
 (C) आवर्ति जमा
 (D) धन जमा
18. नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी?
 (A) 1980 (B) 1982
 (C) 2005 (D) 1990
19. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? [BSEB 2011A]
 (A) 1934 (B) 1935
 (C) 1948 (D) 1951
20. राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है?
 (A) 50 (B) 75
 (C) 35 (D) 25
21. बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
 (A) 1990 (B) 1992
 (C) 1994 (D) 1995
22. केन्द्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
 (A) दिल्ली (B) चेन्नई
 (C) मुम्बई
 (D) कोलकाता
23. बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
 (A) 1970 (B) 1972
 (C) 1975 (D) 1980
24. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
 (A) 1 अप्रैल, 1935
 (B) 1 जनवरी, 1949
 (C) 31 जनवरी, 1935
 (D) 30 जून, 1949
25. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई है?
 (A) छोटे एवं सीमांत किसान
 (B) व्यावसायी वर्ग
 (C) स्वयं सहायता समूह
 (D) सहकारिता
26. ओवर ड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है?
 (A) बचत खाता
 (B) चालू खाता
 (C) मियादी खाता
 (D) इनमें कोई नहीं
27. प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? [BSEB 2017AII]
 (A) आयकर (B) उत्पादकर
 (C) बिक्री कर
 (D) इनमें से कोई नहीं

28. अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि तक होती है।
 (A) 3 महीने से 6 महीने
 (B) 6 महीने से 15 महीने
 (C) 12 महीने से 15 महीने
 (D) 15 महीने से 20 महीने
29. बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान समूह कौन है?
 (A) सहकारी बैंक (B) व्यावसायिक बैंक
 (C) राष्ट्रीय संस्थाएँ
 (D) राजकीय संस्थाएँ
30. किसी गाँव में कम-से-कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं?
 (A) 15 (B) 10
 (C) 12 (D) 20
31. सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था?
 (A) आर० जो० सरैया
 (B) मेक्लेगन
 (C) होरेश
 (D) चेम्सफोर्ड
32. भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? [BSEB 2012A]
 (A) 1904 ई० (B) 1905 ई०
 (C) 1907 ई० (D) 1920 ई०
33. सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी?
 (A) 1929 ई० (B) 1919 ई०
 (C) 1918 ई० (D) 1914 ई०
34. स्वयं-सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है—
 (A) 100-200 (B) हजारों
 (C) 15-20 (D) अनगिनत
35. बैंक का कार्य नहीं है—
 (A) लॉकर सुविधा (B) क्रेडिट कार्ड
 (C) नगद साख
 (D) स्वयं सहायता समूह बनाना
36. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करनेवाली संस्था कौन-सी है?
 (A) कृषक महाजन
 (B) भूमि विकास बैंक
 (C) प्राथमिक कृषि साख समिति
 (D) इनमें कोई नहीं
37. भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई?
 (A) 1970 (B) 1980
 (C) 1990 (D) 2000
38. कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है?
 (A) बिस्कोमान (B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 (C) सहकारी बैंक (D) नाबार्ड
39. सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया?
 (A) प्रथम (B) द्वितीय
 (C) तृतीय (D) चतुर्थ
40. प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है—
 (A) अल्पकालीन (B) दीर्घकालीन
 (C) मध्यकालीन
 (D) इनमें कोई नहीं